

सेवा प्रवेश नियम  
पदोन्नतीसाठी पूर्वअट म्हणून निम्न संवर्गत किमान  
सेवेसंबंधीची अट.

परिविकाशीन कालावधीतील सेवा अनुभवासाठी ग्राह्य न  
घरण्याबाबतचे आदेश मागे घेण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग,

शासन निर्णय क्रमांक: एसआरठी-1091/प्र.क्र. 1/91/12,  
मंत्रालय, मुंबई 400 032, दिनांक : 17 फेब्रुवारी, 1997.

- पहा :- 1) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरठी-1088/109/बारा, दिनांक 25 ऑगस्ट, 1988  
2) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरठी-1088/109/बारा, दिनांक 31 मे, 1989,  
3) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरठी-1088/109/प्रक्र. 1/88/बारा,  
दिनांक 4 सप्टेंबर, 1990.  
4) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे क्र.73(अ)(7)/989/दोन, दिनांक 25 जानेवारी, 1994 व 25 जून 1996  
5) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरठी-1091/प्रक्र. 1/91/बारा, दिनांक 23 मे, 1994.

शासन निर्णय :- परिविकाशीन कालावधीतील सेवा, पदोन्नतीसाठी निम्न संवर्गत पूर्वअट म्हणून अनुभवासाठी ग्राह्य न  
घरण्याबाबतचे वरील अनुक्रमांक (5) येथील आदेश मागे घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे परिविकाशीन कालावधीतील सेवा  
पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेल्या अनुभवासाठी ग्राह्य घरण्यात यावी. मात्र परिविकाशीन कालावधी समाप्त केल्याचे आदेश  
निर्गमित केल्याखेरीज संबंधित सेवकाचा वरच्या पदोन्नतीसाठी विचार करू नये.

सदर आदेश मागे घेण्यात आल्यामुळे दिनांक 23 मे, 1994 ते आजतागायत ज्या कर्मचा-यांचा/अधिका-यांचा/या आदेशामुळे  
पदोन्नतीसाठी विचार करण्यात येऊ शकला नाही अशी काही प्रकरणे असल्यास या कर्मचा-यांचा/अधिका-यांचा  
पदोन्नतीसाठी तातडीने विचार घ्यावा व त्याची पदोन्नत संवर्गत मूळ ज्येष्ठता कायम राखण्यात यावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

य. मा. जोशी,

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रति,

राज्यपालांचे सचिव,

मुख्य मंत्र्यांचे सचिव,

उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव,

\* सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई,

\* सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई,

\* प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ बाजू, मुंबई,

\* प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील बाजू, मुंबई,

सर्व मंत्रालयीन विभाग,

मंत्रालयीन विभागांच्या अखत्यारीमधील सर्व विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख,

\* पंत्राने.